

January 29, 2026

BSE Limited
P.J. Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 544645

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
SYMBOL: PARKHOSPS

Subject: Disclosure under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")- Newspaper Advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of the Newspaper advertisement published today i.e. January 29, 2026 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) editions with respect to Statements of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The copy of the advertisement is being made available on the Company's website at <https://www.parkhospital.in/>

This is for your information and records.

Thanking you,

For and on behalf of Park Medi World Limited

ABHISHEK Digitally signed by
KAPOOR ABHISHEK KAPOOR
Date: 2026.01.29
10:23:13 +05'30'

Name: Abhishek Kapoor

Designation: Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

ईडी ने रिलायंस समूह की 1,800 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के तहत 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की नयी संपत्तियों को कुर्क किया है। इस कार्रवाई के साथ ही इस मामले में जांच एजंसी द्वारा कुर्क की गई कुल संपत्ति का मूल्य अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए हो गया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने इस संदर्भ में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार अलग-अलग अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक जमा, गैर-सूचीबद्ध निवेशों में शेयरधारिता और कुछ अचल संपत्तियां शामिल हैं। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कामर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), यस बैंक ‘धोखाधड़ी’ के साथ-साथ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से

धनशोधन मामले में कार्रवाई। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक जमा, गैर-सूचीबद्ध निवेशों में शेयरधारिता और कुछ अचल संपत्तियां शामिल हैं। इस तलाज कार्रवाई के साथ ही इस मामले में केंद्रीय जांच एजंसी द्वारा कुर्क की गई कुल संपत्ति का मूल्य अब लगभग 12,000 करोड़ हो गया है।

जुड़े एक कथित धोखाधड़ी के मामलों में कुर्की की गई है। एजंसी ने बताया कि नए अधिरोपित शेयरों में बीएसईएस यमुना पावर, बीएसईएस राजधानी पावर और ‘मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट’ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरधारिता शामिल है। वेल्यु काप फाइनेंस एंड सिक्वोरिटीज लिमिटेड के पास मौजूद 148 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि और 143 करोड़ रुपए की प्राय्य राशि को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

ईडी ने बताया कि कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अंगराई सेथुरमन के नाम पर स्थित एक

आवासीय मकान और एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी पुनीत गर्ग की पत्नी के शेयर और म्यूचुअल फंड भी कुर्क कर लिए गए हैं। कुर्क की गई कुल संपत्ति का मूल्य 1,885 करोड़ रुपए है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने अतीत में किसी भी प्रकार के गलत काम से इनकार किया है। एजंसी ने कहा कि उसने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की विभिन्न कंपनियों, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकाम), आरएचएफएल, आरसीएफएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) शामिल हैं, द्वारा सार्वजनिक धन के ‘धोखाधड़ीपूर्ण दुरुपयोग’ का पता लगाया है। यस बैंक ने कहा कि 2017-2019 के दौरान उसने आरएचएफएल उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपए और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपए का निवेश किया। दिसंबर 2019 तक ये निवेश ‘गैर-निष्पादित’ हो गए और आरएचएफएल का बकाया 1,353.50 करोड़ और आरसीएफएल का 1,984 करोड़ रुपए था।

कचरापट्टी पर ठोस कचरा डालने के नियम को सख्त किया गया

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नए नियम 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होंगे। इनसे कचरा प्रबंधन में सख्ती बढ़ेगी, खासकर कचरापट्टी (लैंडफिल साइट्स) पर मिश्रित कचरा डालने पर। नए नियमों के तहत कचरे का स्रोत पर चार-स्तरीय पृथक्करण अनिवार्य है। अपशिष्ट को गीले, सुखे, सफाई एवं विशेष देखभाल वाले कचरे में अलग करना होगा।

कचरापट्टी पर केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनर्प्राप्त योग्य और अक्रिय पदार्थ ही डाले जा सकेंगे। मिश्रित कचरा भेजने पर स्थानीय निकायों को अलग कचरे की प्रक्रिया लागत से ज्यादा ‘कचरापट्टी शुल्क’ देना पड़ेगा। नियमों में ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान है, जिसमें पंजीकरण के बिना

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नए नियम 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

संचालन, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गलत प्रथाएं शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिशानिर्देश बनाएगा, जबकि राज्य बोर्ड क्षतिपूर्ति लगाएंगे। सभी पुराने कचरापट्टी का मानचित्रण, बायो-माइनिंग और जैव उपचार अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर निगरानी करेंगे और राज्य बोर्ड सालाना जांच करेंगे। त्रैमासिक प्रगति आनलाइन पोर्टल पर रपट करनी होगी। थोक अपशिष्ट उत्पादक संस्थाएं (जमीन 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा, पानी 40,000 लीटर रोज या कचरा 100 किलो रोज उत्पन्न करने वाली) जैसे सरकारी विभाग, फैक्टरियां और सोसाइटियां पर्यावरण-अनुकूल तरीके से कचरा संभालेंगी।

अल्पसंख्यक आरक्षण मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जाति के एक हिंदू द्वारा बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण मांगने पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इसे एक नए तरह का धोखा बताया है। प्रधान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के जाट होने के बावजूद बौद्ध अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र मांगने पर हरियाणा सरकार से दिशानिर्देश मांगे हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने यह आपत्ति निखिल कुमार पुनिया बनाम भारत संघ मामले में जताई है। पीठ निखिल कुमार पुनिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने के आधार पर प्रवेश मांगा था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा-आप पुनिया हैं? आप किस अल्पसंख्यक समुदाय से हैं? मैं अब सीधे-सीधे पूछता हूं, आप कौन से पुनिया हैं? प्रधान न्यायाधीश के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि जाट है।

आज जमीनी स्तर पर शासन को समझना कल का नेतृत्व तैयार करता है : बघेल

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बुधवार को कहा कि आदर्श युवा ग्राम सभा विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सजीव अनुभव देकर नागरिक शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लाती है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवा नागरिकों को पंचायती राज संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का अधिकार देती है, ग्राम स्वराज की भावना को मजबूत करती है और सरकारी योजनाओं के बारे में शुरुआती जागरूकता पैदा करते हुए नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि आज जमीनी स्तर पर शासन को समझना कल का नेतृत्व तैयार करता है।

बघेल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किए और इस दौरान वह लोगों को संबोधित कर रहे थे। जवाहर नवोदय विद्यालय, ऊना (हिमाचल प्रदेश) और एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, कोसामबुड़ा (छत्तीसगढ़) ने पहले पुरस्कार के रूप में एक-एक करोड़ रुपए जीते। वहीं, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे स्कूलों को 75 लाख और 50 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए।

बघेल ने कहा कि ऐसे भागीदारी वाले मंच जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा करने में मदद करते हैं और उन्होंने विकसित भारत के भविष्य के



केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, ऊना (हिमाचल प्रदेश) और एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, कोसामबुड़ा (छत्तीसगढ़) ने पहले पुरस्कार के रूप में एक-एक करोड़ रुपए जीते।

नेताओं के रूप में विद्यार्थियों की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण प्रदान करता है। बघेल ने जन धन खातों, प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता और उन्हें अपनाने का आ'न किया, इस बात पर जोर देते हुए कि समावेशी और स्थायी विकास के लिए सूचित भागीदारी महत्वपूर्ण है।

आतिशी से मीडिया बयानों पर लिखित जवाब तलब

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने बुधवार को विपक्ष की नेता आतिशी को एक औपचारिक पत्र जारी कर सदन से विपक्ष के सदस्यों के निलंबन से जुड़े उनके मीडिया बयानों पर लिखित जवाब मांगा है।

सचिवालय की ओर से बताया गया है कि मीडिया में दिए गए कथित तौर पर गलत और दुर्भावनापूर्ण बयानों के मामले को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने छह जनवरी 2026 को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया था। इस संदर्भ में संबंधित मीडिया सामग्री को एक पेन ड्राइव के माध्यम से भी समिति को उपलब्ध कराया गया है। पत्र में आतिशी से अनुरोध किया गया है कि वे इस विषय पर अपनी लिखित टिप्पणी छह फरवरी 2026 तक दिल्ली विधानसभा सचिवालय को सौंपें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच की जा सके। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि यह मामला वर्तमान में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के लिए यातायात प्रतिबंधित

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

नई दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के मद्देनजर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यातायात परामर्श के अनुसार, 29 जनवरी को दोपहर बाद दो बजे से रात साढ़े नौ बजे तक विजय चौक और उसके आसपास राष्ट्रपति भवन, नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक और संसद भवन के आसपास ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के लिए प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

इस अवधि के दौरान विजय चौक सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से कृषि भवन गोल चक्कर तक रफी मार्ग पर तथा कृषि भवन गोल चक्कर से विजय चौक की ओर रायसी रोड पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दारा शिकोह रोड गोल चक्कर, कृष्ण मेनन मार्ग गोल चक्कर और सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से विजय चौक की ओर वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। विजय चौक से सी-हेक्सागन तक कर्तव्य पथ भी आम जनता के लिए बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को रिंग रोड, रानी झांसी रोड और मिटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।

मुठभेड़ के बाद हत्या के मामले में वांछित तीन बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 28 जनवरी।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे तीन बदमाशों को रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई एक हत्या के मामले में वांछित थे। अपराध शाखा को पुष्टा सूचना मिली थी कि संदिग्ध रोहिणी सेक्टर-28 के पास आएंगे, जिसके उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।

अधिकारी ने बताया कि जब आरोपी इलाके में पहुंचे, तो पुलिस टीम ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में तीनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें काबू कर लिया गया। घायल बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया। बाद में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।


आरोपियों की पहचान सिलमपुर, दिल्ली निवासी रहमान (23), शास्त्री पार्क, दिल्ली निवासी आदिल (23) और ब्रह्मपुरी, दिल्ली निवासी मोहम्मद (19) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 जनवरी की रात को चार हथियारबंद हमलावरों ने गोлияं बरसाकर शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में समीर उर्फ कम्मू

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी की रात को चार हथियारबंद इन बदमाशों ने गोлияं बरसाकर शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में समीर उर्फ कम्मू पहलवान की हत्या कर दी थी।

तीनों के पैर में लगी गोली।

पहलवान की हत्या कर दी थी। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि अजमल खान पार्क, सेक्टर-28, रोहिणी में बदमाश आने वाले हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने रात करीब 11:40 बजे एक सफेद रंग की स्कूटी को रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। टीम ने आत्मरक्षा में आरोपियों के पैरों में गोली मार दी। आरोपियों से बरामद स्कूटी भी चोरी की पाई गई है उसका बिंदापुर, द्वारका, दिल्ली में मामला दर्ज है।

उन्होंने बताया कि 30-31 दिसंबर 2025 की रात को वसीम की दिल्ली के शास्त्री पार्क में हत्या कर दी गई थी। वह लारेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गिरोह के बीच गैंगवार से जुड़ा था। वसीम को शास्त्री पार्क में चाकू से मारा गया था। लारेंस बिश्नोई गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि वसीम को गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मारा गया था। वसीम एक जाना-माना बदमाश था।



Reg. Office Address: **HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED**
(A Government of India Enterprise)
Room No. 0923, 9th Floor, Sanskalp Bhawan, GPOA-II, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001
CIN: L70101DL2005GO1132162
Website: www.hpil.co.in
Email: info@hpil.co.in
Tel: 011-23783012/23783013

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2025

Particulars	For the quarter ended			For the nine months ended		For the year ended
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Total Income from operations (Net)	25.55	24.32	23.86	73.73	66.78	90.64
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (before Exceptional Items)	(323.58)	(361.76)	(232.39)	(949.62)	(646.28)	(928.23)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities before Tax (after Exceptional Items)	(323.58)	(361.76)	(232.39)	(949.62)	(646.28)	(928.23)
Net Profit/(Loss) from ordinary Activities after Tax (after Exceptional Items)	(323.58)	(361.76)	(232.39)	(949.62)	(646.28)	(751.85)
Total Comprehensive income after taxes and Non controlling Interest	(323.58)	(361.76)	(232.39)	(949.62)	(646.28)	(751.85)
Paid up Equity Share Capital	28500	28500	28500	28500	28500	28500
Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	-
Earnings per share (from continuing and discontinued operations)						
Basic	(0.11)	(0.13)	(0.08)	(0.33)	(0.23)	(0.26)
Diluted	(0.11)	(0.13)	(0.08)	(0.33)	(0.23)	(0.26)

The above results have been reviewed by an Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28.01.2026. Comparative figures have been regrouped / recasted/ rearranged wherever deemed necessary to confirm to current period classification and negative figures have been shown in bracket.
Note:- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended on December 31, 2025 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.hpil.co.in)



For and on behalf of
Hemisphere Properties India Limited
Sd/-
(D. Thara)
Chairman –cum Managing Director

Place : New Delhi
Date : January 28, 2026

NOVARTIS
NOVARTIS INDIA LIMITED

Registered Office: Inspire BKC, 7th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India. Tel.: +91 22 50243000;
Email: india.investors@novartis.com; Website: www.novartis.in;
CIN: L24200MH1947PLC006104

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2025

Particulars	(₹ in Million)		
	3 months ended 31.12.2025 (Unaudited)	9 months ended 31.12.2025 (Unaudited)	3 months ended 31.12.2024 (Unaudited)
Total Income	946.5	2,925.4	1,036.0
Net Profit for the period before tax	296.5	995.2	352.9
Net Profit for the period after tax	160.9	679.3	254.5
Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	159.5	677.9	254.5
Equity Share Capital (of ₹ 5 each, fully paid)	123.4	123.4	123.4
Other Equity	-	-	-
Earnings Per Share (of ₹ 5 each) (*not annualised)	6.52 *	27.51 *	10.31*
Basic and Diluted (₹)			

- Note:**
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine month ended 31 December, 2025 are available on the stock exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website, www.novartis.in
 - The net profit after tax for the quarter and nine months ended 31 December 2025 includes tax adjustment of ₹ 55.6 million constituting expense of ₹ 25.8 million for A.Y. 2015-2016 (based on effect to appellate orders), (₹ 5.9 million) for A.Y. 2011-2012 (based on effect to appellate orders), ₹ 33.8 million for A.Y. 2023-2024 (based on effect to assessment order) and ₹ 1.9 million for A.Y. 2025-2026 (true up based on Return of income filed) respectively.



By Order of the Board
Shilpa Joshi
Whole time Director & Chief Financial Officer
DIN:09775615

Mumbai, 28 January, 2026

MUTUALFUNDS
Sahi Hai



Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Conservative Hybrid Fund (Erstwhile UTI Regular Savings Fund)

Name of the Plan	Quantum of IDCW (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on January 27, 2026 (per unit)
	%	₹ per unit			₹
UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Monthly Income Distribution cum capital Withdrawal option (IDCW)	0.80%	0.0800	Monday February 02, 2026	₹10.00	17.1745
UTI Conservative Hybrid Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution cum capital Withdrawal option (IDCW)					19.4473

*Distribution of above IDCW is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable). Income distribution will be made, net of tax deducted at source as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal options whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of IDCW to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of IDCW.

Mumbai
January 28, 2026
Toll Free No.: 1800 266 1230
Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gri' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-L65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual Fund Distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

VINTAGE COFFEE AND BEVERAGES LIMITED

Registered Office: 202, Oxford Plaza, S.D. Road, Secunderabad, Hyderabad, Telangana - 500003
CIN: L15100TG1980PLC161210 | Contact No.: 040-27700805 | Email Id: cs@vintagecoffee.in | Website: www.vcbi.coffee

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025

Sl.	Particulars	Quarter Ended				Nine Monthly				Year ended	
		31/12/2025		30/09/2025		31/12/2024		31/12/2025		31/03/2025	
		Standalone Unaudited	Consolidated Unaudited	Standalone Unaudited	Consolidated Unaudited	Standalone Audited	Consolidated Audited	Standalone Unaudited	Consolidated Unaudited	Standalone Audited	Consolidated Audited
1	Total Income from Operations	7,474.76	15,209.06	10,644.56	13,701.48	4,160.20	8,890.06	24,641.73	39,173.19	8,156.37	20,815.06
2	Total Expenses	7,032.91	12,680.41	10,070.07	11,722.33	3,886.80	7,521.84	23,269.12	33,109.59	7,634.14	17,922.97
3	Net Profit / (Loss) (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	441.86	2,528.65	574.49	1,979.16	273.40	1,368.22	1,372.61	6,063.60	522.23	2,892.09
4	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	441.86	2,528.65	574.49	1,979.16	273.40	1,368.22	1,372.61	6,063.60	522.23	2,892.09
5	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	327.34	1,911.37	429.28	1,783.24	203.21	1,245.56	1,021.87	5,118.06	388.56	2,450.91
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	327.34	1,911.37	429.28	1,783.24	203.21	1,245.56	1,021.87	5,118.06	388.56	2,450.91
7	Equity Share Capital Face Value of Rs. 10/-	14,568.84	14,568.84	14,443.84	14,443.84	12,288.34	12,288.34	14,568.84	14,568.84	12,288.34	12,288.34
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
1. Basic:		0.22	1.31	0.30	1.23	0.17	1.01	0.70	3.51	0.32	1.99
2. Diluted:		0.22	1.31	0.30	1.23	0.17	1.01	0.70	3.51	0.32	1.99

Notes:-


- The above Un-Audited Financial Results as recommended by the Audit Committee were considered and approved by the Board of Director's at their meeting held on 28.01.2026
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results alongwith Limited Review Report are available on the websites of the both Stock Exchanges and website of the Company (www.vcbi.coffee).



Place: Hyderabad
Date: 28.01.2026

For Vintage Coffee and Beverages Limited
Sd/-
Balakrishna Tati
Chairman and Managing Director
DIN: 02181095

WHERE THERE IS AFFORDABLE CARE
AND 'WELLNESS FOR ALL'
EVERY QUARTER MATTERS.



Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2025

Particulars	Consolidated					
	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025
Revenue from operations	4,099.66	4,101.98	3,481.29	12,189.43	10,396.51	13,935.70
Profit before tax for the period/year	782.66	913.48	668.09	2,511.94	1,947.47	2,856.70
Profit after tax for the period/year	528.49	785.30	456.46	1,967.79	1,379.93	2,154.41
Total comprehensive income for the period/year	534.08	788.32	460.37	1,973.57	1,381.77	2,162.11
Paid-up equity share capital (face value: ₹2 per share)	863.86	768.80	768.80	863.86	768.80	768.80
Other equity						9,752.11
EPS (₹2 per share)	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Annualised
Basic (₹)	1.35	2.04	1.19	5.09	3.59	5.60
Diluted (₹)	1.35	2.04	1.19	5.09	3.59	5.60

Particulars	Standalone					
	Quarter ended			Nine Months ended		Year ended
	December 31, 2025	September 30, 2025	December 31, 2024	December 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025
Revenue from operations	458.70	326.93	227.57	1,015.32	683.19	915.82
Profit before tax for the period/year	187.52	109.83	5.39	358.30	45.34	89.04
Profit after tax for the period/year	145.59	85.54	1.77	280.12	36.99	71.79
Total comprehensive income for the period/year	146.22	85.03	4.02	280.61	35.87	73.14
Paid-up equity share capital (face value: ₹2 per share)	863.86	768.80	768.80	863.86	768.80	768.80
EPS (₹2 per share)	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Annualised
Basic (₹)	0.37	0.22	0.00	0.72	0.10	0.19
Diluted (₹)	0.37	0.22	0.00	0.72	0.10	0.19

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results (Consolidated & Standalone) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025, are available on the Company's website i.e. www.parkhospital.in and on the Stock Exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
- The above financial results (Consolidated & Standalone) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025, have been reviewed by the Audit committee on January 28, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 28, 2026 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company and have issued an unmodified opinion on the same.
- The company's Board of Directors has approved on December 19, 2025, to acquire 100% shareholding in K P S Wellness Private Limited and SVPD Healthcare Private Limited on a going concern basis, along with transfer of all rights and interests from existing shareholders for INR 2,450 millions and the transfer is expected to be completed by February 28, 2026.
- On January 5, 2026, Park Medi World Limited (the Company) considered and approved the acquisition of whole of existing shareholders of Krishna Super-Speciality Hospital for INR 400 million which owns and operates Mahip Hospital Private Limited, a 250 bedded facility, including 70 ICU beds with modular operation theatres and automated laboratories.



Place: Gurugram
Date: January 28, 2026

Park Medi World Limited
Sd/-
Dr. Ajit Gupta
Chairman and Whole-time Director
DIN: 02865369



PARK MEDI WORLD LIMITED
(CIN: L85110DL2011PLC212901)

Registered Office: 12, Meera Enclave, Near Keshopur Bus Depot, Outer Ring Road, New Delhi-110018. Website: www.parkhospital.in, Email: company.secretary@parkhospital.in, Phone No.: +91-124-6960000